



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 395]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 7, 1981/अग्राहायण 16, 1903

No. 395]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 7, 1981/AGRAHAYANA 16, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

श्रम मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1981

23-11-1981 में विनिर्दिष्ट पोटों के नौभरण
लदाई और उतराई में लगे हुए स्थापनों के
बारे में” ।

[एस-35016(2)/80-पी एफ-2]

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 1981

G.S.R. 642(E).—In exercise of the powers conferred by section 5, read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely:—

1. This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Seventh Amendment) Scheme, 1981.
2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, in paragraph 1, sub-paragraph (3) clause (b), after item (xc,ii), the following item shall be added namely :—

“(xciii)—as respects the establishments engaged in stevedoring, loading and unloading of slips specified in the notification of the Government of

सा. का. नि. 642 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1981 है :
2. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 1 के उप-पैरा (3) खण्ड (ख) में मद (भाग-2) के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

“(अ ग-2) भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (1) तारीख 23-11-1981 में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. 611 (अ) तारीख

India in Ministry of Labour G.S.R.No. 611 (E) dated the 23rd November, 1981, published in Part II, Section 3, sub-section (i) of the Gazette of India Extraordinary dated 23-11-1981.

[S.35016/2/80-PF-II]

सा. का. नि. 643 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 1 की उप-धारा (3) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुक्कुट पालन में लगे हुए उन स्थापनों को, जिनमें बीस या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, स्थापनों के उस वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिन्हें उक्त अधिनियम लागू होगा ।

[सं. एस-35016/1/80-पी एफ-2]

G.S.R. 643(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 1 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby specifies establishments engaged in poultry farming and employing twenty or more persons as a class of establishments to which the said Act shall apply with immediate effect.

[No. S-35016/1/80-PF-II]

सा. का. नि. 644 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 1 की उप-धारा (3) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 'पशु खाद्य उद्योग' में लगे उस प्रत्येक स्थापन को, जिसमें बीस या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, स्थापन के उस वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसको उक्त अधिनियम, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तारीख से लागू होगा ।

[सं. एस-35016/1/79-पी एफ-2]

पी. सिन्हा, उप-सचिव

G.S.R. 644(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 1 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby specifies every establishment engaged in 'Cattle Feed' Industry employing twenty or more persons as a class of establishments to which the said Act shall apply with effect from the date of the publication of this notification in the Official Gazette.

[No. S-35016/1/79-PF-II]

P. SINHA, Dy. Secy.